



आईटीआई लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

22 फरवरी, 2023

प्रेस विज्ञप्ति

आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री राजेश राय ने पदभार ग्रहण किया ।

बेंगलूरु : भारत सरकार ने श्री राजेश राय को आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से यानी 21 फरवरी 2023 से पांच साल की अवधि के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

दिनांक 20 फरवरी, 2023 के भारत सरकार के आदेशानुसार, श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक-विपणन, 21 फरवरी, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार से कार्यमुक्त हुए और निदेशक-विपणन के पद पर बने रहेंगे।

श्री राजेश राय के पास दूरसंचार के क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के साथ-साथ दूरसंचार उद्योग में 30 वर्षों से भी अधिक समृद्ध अनुभव है। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभालने से पूर्व, श्री राजेश राय महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), मुंबई में महाप्रबंधक के रूप में काम किए। श्री राजेश राय, 12 वर्ष मॉरीशस में महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद पर भी काम किया, जहां वे सीडीएमए, जीएसएम, 3जी और 4जी नेटवर्क परिनियोजन और ग्राहक अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार थे।

श्री राजेश राय, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलजे, गोरखपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग स्नातक, जवहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमटेक(कंप्यूटर साइंस) और एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए की उपाधि प्राप्त की है।

इस अवसर पर, आईटीआई लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजेश राय ने कहा कि, “मुझे आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश के रूप में पदभार संभालने की अपार खुशी है। आईटीआई लिमिटेड के पास स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) होने की समृद्ध विरासत है और अब यह भारतीय तकनीकी लोककथाओं का हिस्सा है जहां लगभग हर घर में आईटीआई द्वारा निर्मित टेलीकॉम हैंडसेट हुआ करता था।

आगे चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि, “मुझे ऐसी कंपनी के साथ जुड़कर अपार प्रसन्नता हो रही है, जिसकी इकाई/एमएसपी कार्यालय पूरे भारत में फैला हुआ है और जिसमें दूरसंचार क्षेत्र में उच्चतम कंपनी बनने की क्षमता है। आईटीआई लिमिटेड के अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे और इसकी गहन दूरसंचार निर्माण विशेषज्ञता को देखने के बाद, मैं आईटीआई लिमिटेड की इस रोमांचक परिवर्तन प्रक्रिया का हिस्सा बनने हेतु उत्सुक हूँ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईटीआई ‘आत्मानिर्भर’ और मेक-इन-इंडिया’ प्लेटफार्मों पर बैंकिंग जगत में आगे बड़े, मैं इसलिए पूरी जी-जान लगा दूंगा। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और मैं प्रतिबद्ध पेशेवरों की इस टीम का मूल्यवर्धन और नेतृत्व करने के लिए तत्पर हूँ।”

श्री राजेश राय ने कहा कि, “मेरा मुख्य आकर्षण कंपनी के उत्पादन और राजस्व को बढ़ाने हेतु जो कुछ भी करना होगा, वह करना तथा कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए इसे सर्वोत्तम स्थान बनाना होगा।”

श्री राजेश राय, आईटीआई लिमिटेड में एक नई उर्जा के साथ आए हैं, क्योंकि उनका शानदार कैरियर इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने जहाँ कहीं भी कार्यभार संभाला है, उन्होंने उस जगह पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।